

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 जून 2010—ज्येष्ठ 26, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010 (ज्येष्ठ 26, 1932)

क्र. 11947-वि.स./विधान/2010.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 15 जून 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 19 जुलाई 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूं.

रामेश्वर ठाकुर  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

भोपाल :  
दिनांक : 15 जून, 2010

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.